



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 113 राँची, सोमवार, 9 पौष, 1938 (श०)  
30 जनवरी, 2017 (ई०)

---

### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----  
अधिसूचना

23 जनवरी, 2017

**संख्या-8/गठन/113/2016-666--** झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम-07,2012), की धारा-3 की उपधारा-(1) (2), धारा-4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल कोडरमा जिलान्तर्गत डोमचांच (डोमचांच उत्तरी, डोमचांच दक्षिणी, डोमचांच पूर्वी, महथाडीह, एवं तेतरियाडीह अंश) के कुल सात राजस्व ग्रामों को मिलाकर कुल जनसंख्या-24531 होने के फलस्वरूप संक्रमणशील शहरी क्षेत्र (नगर पंचायत) घोषित करने संबंधी 'प्रारूप आदेश' निर्गत करना चाहते हैं ।

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के "झारखण्ड गजट" में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर डोमचांच नगर पंचायत के गठन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, कोडरमा के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं ।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, कोडरमा के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-5 की उपधारा-(2) के अधीन उपायुक्त, कोडरमा द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

**प्रारूप आदेश**

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम-07,2012), की धारा-3 की उपधारा-(1) (2), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ कोडरमा जिलान्तर्गत (डोमचांच उत्तरी, डोमचांच दक्षिणी, डोमचांच पूर्वी, महथाडीह, तेतरियाडीह अंश) (सूची संलग्न) को मिलाकर संक्रमणशील शहरी क्षेत्र (नगर पंचायत) के रूप में घोषित करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अरूण कुमार सिंह,**  
सरकार के प्रधान सचिव ।

**अनुलग्नक-I****नगर विकास एवं आवास विभाग****डोमचांच नगर पंचायत का गठन**

उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-07/सा०, दिनांक 4 जनवरी, 2017 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में कोडरमा जिलान्तर्गत प्रस्तावित डोमचांच नगर पंचायत में सम्मिलित होने वाले 07 राजस्व ग्रामों की सूची निम्नवत् है:-

क्र०	पंचायत	राजस्व ग्राम का नाम	थाना सं०	जनसंख्या (2011 के जनगणना के अनुसार)
1.	डोमचांच उत्तरी	डोमचांच उत्तरी (सम्पूर्ण)	68	6293
2.	डोमचांच दक्षिणी	डोमचांच दक्षिणी (सम्पूर्ण)	68	6112
3.	डोमचांच पूर्वी	डोमचांच पूर्वी (सम्पूर्ण)	68	3404
		महेशपुर	216	774
4.	महथाडीह	महथाडीह	66	4084
		दूरोडीह	-	1545
5.	तेतरियाडीह अंश	तेतरियाडीह अंश	63	2319
कुल जनसंख्या :-				<b>24531</b>

डोमचांच नगर पंचायत एक झलक में :-

- (i) डोमचांच नगर पंचायत की कुल जनसंख्या-24531
- (ii) प्रस्तावित नगर पंचायत का क्षेत्रफल - 17.48 वर्ग कि०मी०

**प्रधान सचिव,**  
नगर विकास एवं आवास  
विभाग।

-----